

प्रेस नोट दिनांक-21.10.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री शैलेन्द्र कुमार राय एवं क्षेत्राधिकारी मऊ के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री प्रमोद कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार पाल तथा उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 05 दिन पूर्व म0प्र0 के थाना मझगवां क्षेत्र में चोरी गयी मोटरसाइकिल के साथ 03 चोर गिरफ्तार किये गये। अभियुक्तगण/बाल अपचारी के कब्जे से एक अदद मोटर साइकिल होण्डा साइन SP ग्रे कलर बिना नम्बर के इंजन नं 0JC 73 –T-1187178 व चेचिस नं 0 ME4JC734JHT105485 बरामद किया। बरामदगशुदा मोटरसाइकिल की चोरी के सम्बन्ध में म0प्र0 के सतना जिले के थाना मझगवां में मु0अ0सं0 192/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्तों/बाल अपचारी का विवरण:-

1. अभियुक्त- रवि वर्मा पुत्र कामता वर्मा निवासी नई बस्ती बाई पास मझगवां थाना मझगवां जिला सतना म0प्र0
2. अभियुक्त- विनोद वर्मा पुत्र पुरुषोत्तम निवासी नई बस्ती बाई पास मझगवां थाना मझगवां जिला सतना म0प्र0
3. बाल अपचारी- इरसाद पुत्र इस्तयाक खां निवासी नई बस्ती बाई पास मझगवां थाना मझगवां जिला सतना म0प्र0

अभियुक्तों/बाल अपचारी का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0- 46/2021 धारा 41/411 IPC थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट
2. मु0अ0स0- 192/2021 धारा 379/411 IPC

बरामदगी-

एक अदद मोटर साइकिल होण्डा साइन SP ग्रे कलर इंजन नं 0JC 73 –T-1187178 व चेचिस नं 0ME4JC734JHT105485

गिरफ्तारी टीम का विवरण निम्नवत् है:-

01. उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार थाना मारकुण्डी
02. का0 भाष्कर शुक्ला
03. का0 अमित सिंह
04. का0 कमलेश जायसवाल
05. का0 शिवबहादुर सिंह

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री राजीव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शैलेन्द्रचन्द्र पाण्डेय तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त लक्ष्मण पटेल पुत्र रामजी निवासी लोढ़वारा थाना कोतवाली कर्वी को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

20 क्वार्टर देशी शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री शैलेन्द्रचन्द्र पाण्डेय थाना कोतवाली कर्वी
2. उ0नि0 श्री चन्द्रमणि पाण्डेय
3. आरक्षी लवकुश

(3). आज दिनांक 21.10.2021 को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस लाईन्स चित्रकूट में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल द्वारा शहीद पुलिस जवानों को याद किया गया तथा सम्पूर्ण उ0प्र0 में कर्तव्य पालन के दौरान इस सितम्बर 2020 से अगस्त 2021 में शहीद हुये पुलिस जवानों के नामों को पढ़कर सुनाया गया तथा शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित करते

हुये सभी शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजली दी गयी। श्रद्धांजलि के पश्चात गार्ड ऑफ आनर देकर सेरेमोनियल गार्ड तथा उपस्थित सभी पेरिड कर्मियों व अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा सभी शहीद पुलिस जवानों को शोक सलामी दी गयी व 02 मिनट का मौन भी धारण किया गया।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्र कुमार राय, क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पांडेय, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री शिव प्रकाश सोनकर, श्री यतीन्द्रनाथ उमराव मुख्य अग्निशन अधिकारी, प्रतिसार निरीक्षक श्री सुमेर सिंह, प्रतिसार निरीक्षक कन्ट्रोल रूम श्री कप्तान सिंह सेंगर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री राजीव कुमार सिंह, पीआरओ श्री शिवकुमार यादव तथा पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(4). आज दिनांक 21.10.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले फरियादियों को बताया गया कि आप अपनी शिकायत जनसुनवाई आपके द्वार के तहत मो0न0 8810747614 पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी कर सकते है, आप लोगों को दूर दराज से यहां तक नहीं आना पडेगा, आपकी शिकायत वीडियो कॉलिंग पर ही सुन ली जायेगी तथा निस्तारण कराया जायेगा, जिससे आप लोगों को समय की तथा आर्थिक बचत होगी।

इस दौरान महोदय द्वारा जनसुनवाई आपके द्वार के तहत वीडियो कॉलिंग से प्राप्त शिकायतों को भी सुना गया एवं उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धलस जायसवाल के निर्देशन में यातायात व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाये जाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में आज दिनांक 21-10-2021 को श्री जुबेर अहमद खां(JRF) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बाँदा, PTO डॉ संतोष तिवारी, PTO श्री वीरेन्द्र राजभर परिवहन विभाग एवं यातायात प्रभारी श्री योगेश कुमार यादव तथा उनकी टीम द्वारा मोडिफाइड साइलेंसर की चेकिंग की अभियान चालाया गया। इस अभियान में मानक के विपरीत मोडिफाइड साइलेंसर पाये जाने पर 2 बुलेट का चालान 10-10 हजार रुपये के पेंडिंग चालान किया गया तथा चेकिंग के दौरान कुल 8 बुलेट चेक की गयी जिसमे 6 मानक के अनुरूप साइलेंसर पाये गए। इस दौरान वाहन चालको को मोडिफाइड साइलेंसर न लगवाने के सम्बन्ध में पम्पलेट वितरित कर जागरूक किया गया।

(5). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाए जा रहे अभियान “मिशन शक्ति फेज-3” के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाए जा रहे अभियान “मिशन शक्ति फेज-3” के तहत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 21.10.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा बस स्टैंड, जमिरा कालोनी व पूर्व माध्यमिक विद्यालय में जाकर भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया। एण्टी रोमियों टीम की महिला आरक्षियों द्वारा बालिकाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दी गयी। एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियों टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।

भ्रमण के दौरान महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानो में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओ की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से

उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हैल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हैल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवैसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया।